





बवासीर से राहत



पाचन तंत्र में सुधार

RootPURE
HAPPINESS SURE

PILES

CARE
(Pravahi Kwath)



Management of
Constipation & Piles

Smile
without
Pain

100%

Natural Juice

Net Vol. : 33.8 Fl Oz/1000ml.



पुराना कब्ज



सूजन कम कर देता है



बवासीर से राहत - असुविधा को कम करना और कल्याण को बढ़ाना। यह रस बवासीर से जुड़ी परेशानी और जलन से राहत दिलाने में मदद करता है। यह आपके शरीर के जलयोजन स्तर को बनाए रखता है और महत्वपूर्ण खनिज और विटामिन प्रदान करता है।



पुरानी कब्ज से राहत - बवासीर से जूझ रहे लोगों के लिए पुरानी कब्ज की संभावना बढ़ जाती है। इस जूस को पीने से आपके शरीर में जलयोजन और फाइबर की मात्रा को बनाए रखने में मदद मिल सकती है। बवासीर से संबंधित लक्षणों को भी कम करता है।



पाचन तंत्र में सुधार - बवासीर से जूझने से बचने के लिए, पोषण नियंत्रण जैसे पहलुओं पर विचार करना महत्वपूर्ण है। उन दिनों जब आपके आहार का पालन करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है, यह पाइल केयर जूस आपके पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में सहायता कर सकता है।



सूजन को कम करता है - पाइल्स केयर जूस का सेवन करने पर, आपके शरीर को शीतलन प्रभाव का अनुभव होता है जो साथ-साथ जलयोजन बनाए रखता है। प्राकृतिक तत्वों से भरपूर होने के कारण यह रस त्वचा की जलन, खुजली और सूजन से राहत देता है।

सामग्री



लोधरा : माना जाता है कि लोधरा में कसैले और सूजन-रोधी गुण होते हैं।



आंवला : आंवला विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। ऐसा माना जाता है कि यह पाचन में सहायता करता है और आंत्र नियमितता को बढ़ावा देता है।



बिभीतकी : पारंपरिक आयुर्वेदिक फार्मूला त्रिफला में मौजूद सामग्रियों में से एक है।



हल्दी : हल्दी अपने सूजनरोधी और घाव भरने वाले गुणों के लिए जानी जाती है।



पुनर्नवा : माना जाता है कि पुनर्नवा में सूजन-रोधी गुण होते हैं।

सामग्री



विडंग : विडंग को पारंपरिक रूप से पाचन और हल्के रेचक गुणों वाला माना जाता है।



निर्गुडी : जबकि बकायन का उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है।



सोंठ (सूखी अदरक) : अदरक अपने पाचन गुणों के लिए जाना जाता है और संभावित रूप से पाचन संबंधी परेशानी को कम करने में मदद कर सकता है।



चित्रक : ऐसा माना जाता है कि चित्रक पाचन को उत्तेजित करता है और चयापचय में सुधार करता है।



बेल : फल को पाचक और रेचक गुणों वाला माना जाता है। यह कब्ज से राहत देने और चिकनी मल त्याग को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है।



जीएमपी प्रमाणित



कीटो अनुकूल



ग्लूटेन मुक्त



आयुष प्रमाणित



प्रीमियम गुणवत्ता



सुरक्षा के लिए लैब में परीक्षण



PILES

CARE

लोध्र, आंवला, बिभीतकी, हल्दी, पुनर्नवा, वै विडंग, निशोथ, नागकेशर, बकायन, सोंठ, चित्रक, बिलाव, द्राक्षा, वच और एलोवेरा के शक्तिशाली उपचार गुणों को एक ही रस में मिलाकर बवासीर से राहत के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान किया जाता है। यह सहक्रियात्मक मिश्रण बवासीर से संबंधित असुविधा के प्रबंधन में कई लाभ प्रस्तुत करता है।

बवासीर केवल असुविधा से कहीं अधिक प्रस्तुत करता है; वे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य चुनौतियाँ पैदा कर सकते हैं। इसलिए, उन्हें नज़रअंदाज़ करना उचित नहीं है। समाधान चुनना आवश्यक है! पेश है पाइल्स केयर जूस - सर्जिकल विकल्पों का एक बेहतर विकल्प। 10 प्राकृतिक जड़ी-बूटियों से बना यह रस बवासीर को प्रभावी ढंग से ठीक करता है। विशेषज्ञों द्वारा समर्थित, यह सभी प्रकार के बवासीर के लिए फायदेमंद साबित होता है।

इसके अलावा, यह समग्र पाचन स्वास्थ्य को बढ़ाता है और कब्ज को खत्म करता है। यह जूस सिर्फ राहत ही नहीं देता; यह स्थायी आराम के लिए एक समग्र दृष्टिकोण है। बवासीर के लिए इस प्राकृतिक समाधान पर विचार करके अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। व्यक्तिगत सलाह के लिए हमेशा पेशेवरों से परामर्श लें और एक सुरक्षित और सूचित विकल्प सुनिश्चित करें।






उपयोग कैसे करें ?



उपयोग से पहले बोतल
को हिलाएं।



गर्म पानी के साथ
30 मिलीलीटर जूस
पतला करें



भोजन से पहले
प्रतिदिन दो बार सेवन करें